

January 21, 2019

The Secretary, BSE Limited, 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400001	Asst. Vice President, Listing Department, National Stock Exchange of India, "Exchange Plaza", Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051
--	---

Sub: Submission of newspaper advertisement

Dear Sirs,

Please find enclosed herewith advertisement for notice of Board meeting published in Hindi & English language newspapers today.


You are requested to take the same on record.

Thanking you

Yours faithfully,

For New Delhi Television Limited

Hemant Kumar Gupta
Company Secretary & Compliance Officer



Enclosed as above

PM-led panel to discuss names for CBI chief's post on Jan 24

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, January 20

— the senior most but lacking experience in the CBI. Rai, a Haryana-cadre officer who is set to retire on January 31, 2019, is director general, State Vigilance Bureau, which makes him eligible for the post, the officials said.


Special secretary (internal security), home ministry, Rina Mitra of the 1983-batch is another contender.

She served in the CBI for five years and had a long tenure in Madhya Pradesh state vigilance where she handled serious corruption cases.

ASBA* Simple, Safe Smart way of Application

*Applications Supported by Blocked Amount ("ASBA") is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For further details, check section on ASBA below. **Mandatory in public issues from October 01, 2016. No cheque will be accepted**

This is an advertisement issued to the public, pursuant to Regulation 8 (1) of the Issue and Listing of Debt Securities Regulations, 2008, as amended, for information purpose only and addendum cum corrigendum notice to the Shelf Prospectus and Tranche I Prospectus issued to the public.



INDIA INFOLINE FINANCE LTD.

Registered Office: 12A-10, 13th Floor, Parinee Crescenzo, G Block, C-38 and C-39, Bandra Kuria Complex, Bandra - East, Mumbai 400 051, Maharashtra, India. CIN: U67120MH2004PLC147365
Tel.: +91 22 6788 1000 • Fax: +91 22 6788 1010 • Website: www.iifl.com • Company Secretary and Compliance Officer: Gajendra Thakur • Email: governance@iifl.com

India Infoline Finance Limited (the "Company" or "Issuer") was incorporated at Mumbai on July 7, 2004 as a private limited company with the name "India Infoline Investment Services Private Limited" under the provisions of the Companies Act. The status of the Company was changed pursuant to a resolution of shareholders of the Company to a public limited company on May 15, 2007 and the name was changed to India Infoline Investment Services Limited pursuant to fresh certificate of incorporation dated July 10, 2007 issued by the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai. Further the name of the Company was changed to "India Infoline Finance Limited" pursuant to fresh certificate of incorporation dated November 18, 2011 issued by the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai. Also, the Company has obtained a Certificate of Registration dated May 12, 2005 bearing registration No. B-13.016792 issued by the Reserve Bank of India ("RBI") to commence the business of a non-banking financial institution without accepting public deposits under Section 45 IA of the RBI Act, 1934. The Issuer is a Systemically Important Non-Deposit taking Non-Banking Finance Company ("NBFC"). For more information about the Company, please refer "General Information" and "History and Main Objects" on pages 45 and 121 of the Shelf Prospectus.

PUBLIC ISSUE BY THE COMPANY OF SECURED REDEEMABLE NON-CONVERTIBLE DEBENTURES OF FACE VALUE OF ₹ 1000 EACH ("SECURED NCDs/DEBENTURES") AND/OR UNSECURED REDEEMABLE NON-CONVERTIBLE DEBENTURES OF THE FACE VALUE OF ₹ 1000 EACH ("UNSECURED NCDs/DEBENTURES") FOR AN AMOUNT AGGREGATING UPTO ₹ 2,500 MILLION ("BASE ISSUE SIZE") WITH AN OPTION TO RETAIN OVERSUBSCRIPTION UPTO ₹ 17,500 MILLION AGGREGATING UPTO ₹ 20,000 MILLION ("TRANCHE I ISSUE") WHICH IS WITHIN THE SHELF LIMIT OF ₹ 50,000 MILLION AND IS BEING OFFERED BY WAY OF THE TRANCHE I PROSPECTUS DATED JANUARY 11, 2019 CONTAINING, INTER ALIA, THE TERMS AND CONDITIONS OF THE TRANCHE I ISSUE ("TRANCHE I PROSPECTUS") WHICH SHOULD BE READ TOGETHER WITH THE SHELF PROSPECTUS DATED JANUARY 11, 2019 ("SHELF PROSPECTUS") FILED WITH THE REGISTRAR OF COMPANIES, MAHARASHTRA, MUMBAI, STOCK EXCHANGES AND SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA, THE SHELF PROSPECTUS AND THE TRANCHE I PROSPECTUS CONSTITUTE THE PROSPECTUS ("PROSPECTUS").

THE ISSUE IS BEING MADE PURSUANT TO THE PROVISIONS OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATION, 2008, AS AMENDED FROM TIME TO TIME (THE "SEBI DEBT REGULATION") AND COMPANIES ACT, 2013 AND RULES MADE THEREUNDER AS AMENDED TO THE EXTENT NOTIFIED.

Credit Rating: BWR AA+/Stable by Brickworks Ratings India Private Limited, CRISIL AA/Stable by CRISIL Ratings Limited & [ICRA] AA (Stable) by ICRA Limited. Allotment on first come first serve basis.*

Allotment in the public issue of debt securities shall be made on the basis of date of upload of each application into the electronic book of the stock exchange. However, on the date of oversubscription, the allotment should be made to the applicants on proportionate basis. For detailed terms and conditions, please refer to the Shelf Prospectus dated January 11, 2019 and Tranche I Prospectus dated January 11, 2019.

THE FOLLOWING IS A SUMMARY OF THE TERMS OF THE NCDs TO BE ISSUED PURSUANT TO THE TRANCHE I PROSPECTUS:

Series	I	II	III	IV	V	VI
Nature	Secured	Secured	Secured	Secured	Unsecured	Unsecured
Frequency of Interest Payment	Annual	Cumulative	Monthly	Annual	Monthly	Annual
Minimum Application	₹ 10,000/- (10 NCDs) across all series					
Face Value / Issue Price of NCDs (₹ NCDs)	₹ 1,000/-					
In Multiples of thereafter (In ₹)	₹ 1,000/- (1 NCD)					
Tenor	39 months	39 months	60 months	60 months	120 months	120 months
Coupon (% per annum) for NCD Holders in Category I*	9.50	N.A.	9.60	10.00	9.90	10.35
Coupon (% per annum) for NCD Holders in Category II, III & IV*	9.60	N.A.	9.75	10.20	10.00	10.50
Effective Yield (per annum) for NCD Holders in Category I	9.50	9.50	10.03	10.00	10.36	10.35
Effective Yield (per annum) for NCD Holders in Category II, III and IV	9.60	9.60	10.20	10.20	10.47	10.50
Mode of Interest Payment	Through various modes available					
Amount (₹ / NCD) on Maturity for NCD Holders in Category I	₹ 1000/-	₹ 1342.65	₹ 1000/-	₹ 1000/-	₹ 1000/-	₹ 1000/-
Amount (₹ / NCD) on Maturity for NCD Holders in Category II, III & IV	₹ 1000/-	₹ 1346.63	₹ 1000/-	₹ 1000/-	₹ 1000/-	₹ 1000/-
Maturity / Redemption Date (months from the Deemed Date of Allotment)	39 months	39 months	60 months	60 months	120 months	120 months
Put Option	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Call Option (any time after the months to expire from the Deemed Date of Allotment)	24 months	24 months	30 months	30 months	66 months	66 months

*The Company shall allocate and allot Series I NCDs wherein the Applicants have not indicated the choice of the relevant NCD Series. The Company shall allocate and allot Series VI NCDs wherein the Applicants have not indicated the choice of relevant Unsecured NCD Series. If the Deemed Date of Allotment undergoes a change, the Coupon payment dates, redemption dates, redemption amounts and other cash flow shall also be changed accordingly.

ISSUE PROGRAMME*

Tranche I Issue Opens On: Tuesday, January 22, 2019
Tranche I Issue Closes On: Wednesday, February 20, 2019

*The Tranche I Issue shall remain open for subscription on Working Days from 10 a.m. to 5 p.m. during the period indicated above, except that the Tranche I Issue may close on such earlier date or extended date as may be decided by the Board of Directors of the Company ("Board") or Finance Committee. In the event of an early closure or extension of the Tranche I Issue, the Company shall ensure that notice of the same is provided to the prospective investors through an advertisement in a reputed daily national newspaper with wide circulation on or before such earlier or extended date of Tranche I Issue closure. On the Tranche I Issue Closing Date, the Application Forms will be accepted only between 10 a.m. and 3 p.m. (Indian Standard Time) and uploaded until 5 p.m. or such extended time as may be permitted by the Stock Exchanges.

Applications Supported by Blocked Amount (ASBA): Investors have to apply through the ASBA process. ASBA has to be applied by all the investors. For details on the ASBA process, please refer to the details given in Application Form and Abridged Prospectus and also please refer to the section "Issue Procedure" on page 65 of the Tranche I Prospectus.

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects of the Company, see "History and Main Objects" on page 121 of the Shelf Prospectus and Clause III (A) of the Memorandum of Association of the Company. The Memorandum of Association of the Company is a document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section titled "Material Contracts And Documents For Inspection" on page 279 and on page 97 of the Shelf Prospectus and Tranche I Prospectus respectively.

LIABILITY OF MEMBERS: Limited

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE AS AT THE DATE OF THE SHELF PROSPECTUS: The Authorised Share Capital of the Company is ₹ 8,950,000,000.00 divided into 300,000,000 equity shares of ₹ 10 each, 1,999,600 equity shares of ₹ 100 each, 400 Preference Shares of ₹ 100 each and 575,000,000 Preference Shares of ₹ 10 each. The issued, subscribed and paid up share capital of the Company is ₹ 2,806,206,010.00 divided into 280,820,601 Equity Shares of ₹ 10 each. For information on the share capital of the Company, see "Capital Structure" on page 53 of the Shelf Prospectus and the section titled "Material Developments" on page 29 of the Tranche I Prospectus.

NAMES OF THE SIGNATORIES AT THE TIME OF SIGNING OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF SHARES SUBSCRIBED FOR BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for of face value of ₹ 10 each by them at the time of signing of the Memorandum of Association: Mr. Nirmal Bhanwarlal Jain - 5000 Equity Share and Mr. R. Venkataraman - 5000 Equity Share.

LISTING: The NCDs offered through the Tranche I Prospectus are proposed to be listed on the BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE"). The Company has received an "in-principle" approval from the BSE vide their letter no. DCS/BM/PI-BOND/17/18-19 dated December 4, 2018 and from NSE by way of its letter bearing reference number NSE/ELI/17/18/203 dated December 4, 2018. For the purposes of the Tranche I Issue BSE shall be the Designated Stock Exchange.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the Prospectus has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited.

DISCLAIMER CLAUSE OF USE OF BSE ELECTRONIC PLATFORM: It is to be distinctly understood that the permission given by the BSE to use their network and software of the Online system should not in any way be deemed or construed as compliance with various statutory requirement approved by the Exchange, nor does it in any manner warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the compliance with the statutory and other requirements; nor does it take any responsibility for the financial or other soundness of the Company, its promoters, its management or any scheme or project of this Company.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the Disclaimer Clause of the NSE.

DISCLAIMER CLAUSE OF USE OF NSE ELECTRONIC PLATFORM: It is to be distinctly understood that the permission given by the NSE to use their network and Online Platform for facilitating applications for public issue of NCDs shall not in any way be deemed or construed as compliance with various statutory and other requirements by the Company; LMs are cleared or approved by NSE; nor does it warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the compliance with the statutory and other requirements; nor does it take any responsibility for the financial or other soundness of the Issuer, its promoters, its management or any scheme or projects of the Issuer.

DISCLAIMER CLAUSE OF RBI: The Company is having a valid certificate of registration dated May 12, 2005 issued by the Reserve Bank of India under section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. However, the RBI does not accept any responsibility or guarantee about the present position as to the financial soundness of the Company or for the correctness of any of the statements or representations made or opinions expressed by the Company and for repayment of deposits/discharge of liability by the Company.

CREDIT RATING: The NCDs proposed to be issued under this Issue have been rated BWR AA+/Stable (pronounced as BWR Double A Plus with Stable outlook) for an amount of ₹ 50,000 million by Brickworks Ratings India Private Limited vide their rating letter dated October 31, 2018 which was further revalidated by their revalidation letter dated January 9, 2019, CRISIL AA/Stable (pronounced as CRISIL Double A rating with Stable outlook) for an amount of ₹ 50,000 million by CRISIL Ratings Limited vide their rating letter dated November 2, 2018 which was further revalidated by their revalidation letter dated January 9, 2019 and ICRA AA (Stable) (pronounced as ICRA Double A) for an amount of ₹ 50,000 million by ICRA Limited vide their rating letter dated November 1, 2018 which was further revalidated by their revalidation letter dated January 9, 2019. The aforesaid rating indicates that instruments with this rating are considered to have high degree of safety regarding timely servicing of financial obligations and carry very low credit risk. The rating is not a recommendation to buy, sell or hold securities and investors should take their own decision. The rating may be subject to revision or withdrawal at any time by the assigning rating agency and each rating should be evaluated independently of any other rating. The rating agency has a right to suspend or withdraw the rating at any time on the basis of factors such as new information. Please refer to Annexures A, B and C of the Shelf Prospectus and the Tranche I Prospectus for the rationale of the above ratings.

GENERAL RISKS: Investors are advised to read the Shelf Prospectus, and the Tranche I Prospectus carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision the investor must rely on his own examination of the Issuer and the Issue including the risks involved. Specific attention of the Investor is invited to "Risk Factors" on page 18 of the Shelf Prospectus on page 175 of the Shelf Prospectus before making an investment in the Tranche I Issue. The Tranche I Prospectus has not been and will not be approved by any regulatory authority in India, including the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), the Reserve Bank of India, any registrar of companies or any stock exchange in India, nor do they guarantee the accuracy or adequacy of the document.

AVAILABILITY OF APPLICATION FORM: Application Forms can be obtained from: India Infoline Finance Limited, Tel: 91 22 6788 1000, Fax: +91 22 6788 1010; Lead Managers: Edelweiss Financial Services Limited, Tel: +91 22 4086 3610; IIFL Holdings Limited, Tel: +91 22 4646 4600; Fax: +91 22 2493 1073, ICICI Securities Limited, Tel: +91 22 2282 2460, Fax: +91 22 2282 2460; Trust Investment Advisors Private Limited, Tel: +91 22 4084 5000, Fax: +91 22 4084 5007; and offices of Syndicate Members, Trading Members and Designated Branches of the SCSBs. Electronic Application Forms will be available on the websites of the SCSBs that permit submission of ASBA Application electronically. Application Forms may be downloaded from the websites of Stock Exchange and Syndicate Members.

AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Prospectus and the "Risk Factors" on page 18 of the Shelf Prospectus contained therein, before applying in the Issue. The physical copies of the Prospectus can be obtained from the Company's Registered Office, offices of Lead Managers, offices of Lead Brokers, Registrar to the Issue, Designated RTA Locations for RTAs, Designated CDP Locations for CDPs and Designated Branches of the SCSBs. Full copy of the Prospectus is available on the websites of the Issuer/Lead Managers/BSE/NSE at www.iifl.com, www.edelweissfn.com, www.iiflcap.com, www.icicisecurities.com, www.trustgroup.in, respectively.

PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK AND REFUND BANK: HDFC Bank Limited

Note: Capitalized terms not defined herein shall have the same meaning as assigned to such terms in the Shelf Prospectus and/or Tranche I Prospectus.

LEAD MANAGERS TO THE ISSUE			
<p>Edelweiss Financial Services Limited Edelweiss House, Off CST Road, Kaima, Mumbai - 400 098 Tel.: +91 22 4086 3535 Fax: +91 22 4086 3610 Email: iifl.ncd@edelweissfn.com Investor Grievance Email: customerservice.mb@edelweissfn.com Website: www.edelweissfn.com Contact Person: Lokesh Singh / Mandep Singh Compliance Officer: B. Ranganathan SEBI Registration No.: INM000010650</p>	<p>IIFL Holdings Limited* 10th Floor, IIFL Centre, Kamala Centre, Mumbai - 400 013 Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai - 400 013 Tel.: +91 22 4646 4600 • Fax: +91 22 2493 1073 Email: iifl.ncd2018@iiflcap.com Investor Grievance Email: ig_ib@iiflcap.com Website: www.iiflcap.com Contact Person: Sachin Kapoor / Nishita Mody Compliance Officer: Sourav Roy SEBI Registration no.: INM000010940</p>	<p>ICICI Securities Limited ICICI Centre, H.T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai 400 020, Maharashtra, India Tel.: +91 22 2282 2460 Fax: +91 22 2282 6580 E-mail: iifl.ncd@icicisecurities.com Investor Grievance Email: customercare@icicisecurities.com Website: www.icicisecurities.com Contact Person: Rupesh Khant / Suyash Jain Compliance Officer: Sonali Chandak SEBI Registration No.: INM000011179</p>	<p>Trust Investment Advisors Private Limited 109/110, Balarama, BKC, Bandra (E), Mumbai - 400 051 Tel.: +91 22 4084 5000 Fax: +91 22 4084 5007 Email: mbcd.trust@trustgroup.in Investor Grievance Email: customercare@trustgroup.in Website: www.trustgroup.in Contact Person: Vikram Thirani Compliance Officer: Ankur Jain SEBI Registration No.: INM000011220</p>

REGISTRAR TO THE ISSUE	DEBENTURE TRUSTEE TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER
<p>Link Intime India Private Limited C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083 Tel.: + 91 22 4918 6200 • Fax: + 91 22 4918 6195 Email: iifl.ncd2018@linkintime.co.in • Website: www.linkintime.co.in Investor Grievance Email: iifl.ncd2018@linkintime.co.in Contact Person: Shanti Gopalkrishnan SEBI Registration No.: INR00004058</p>	<p>Catalyst Trustee Limited** GDA House, Plot No. 85, Bhusari Colony (Right), Kolhurd, Pune - 411038 Tel: 022 49220539 • Fax: 022 - 49220505 • Email: Compliance.CTL-Mumbai@ctltrustee.com Website: www.catalysttrustee.com • Investor Grievance Email: grievance@ctltrustee.com Contact Person: Umesh Salvi SEBI Registration No.: IND000000034</p>	<p>Gajendra Thakur 12A-10, 13th floor, Parinee Crescenzo, G Block, C-38 and C-39, Bandra Kuria Complex, Bandra, Mumbai-400051 Tel.: +91 22 6788 1000 • Fax: +91 22 6788 1010 • Email: governance@iifl.com</p> <p>Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer in case of any pre-issue or post-issue related issues such as non-receipt of Allotment Advice, demand credit of allotted NCDs, refunds, transfers, etc. as the case may be.</p>

*IIFL Holdings Limited is deemed to be associate of the Company as per the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992, as amended (Merchant Bankers Regulations). Further, in compliance with the provisions of Regulation 21A and explanation to Regulation 21A of the Merchant Bankers Regulations, IIFL Holdings Limited would be involved only in marketing of the Issue.

**Catalyst Trustee Limited under regulation 4(4) of SEBI Debt Regulations has by its letter dated October 31, 2018 given its consent for its appointment as Debenture Trustee to the Issue and for its name to be included in Tranche I Prospectus and in all the subsequent periodical communications sent to the holders of the NCDs issued pursuant to the Issue.

A copy of the Shelf Prospectus and Tranche I Prospectus has been filed with the Registrar of Companies, Mumbai in terms of Section 26 and 31 of Companies Act, 2013, along with the endorsed/certified copies of all requisite documents. For further details, please refer to the section titled "Material Contracts and Documents For Inspection" on page 279 and on page 97 of the Shelf Prospectus and the Tranche I Prospectus respectively.

ADDENDUM CUM CORRIGENDUM NOTICE TO THE SHELF PROSPECTUS AND TRANCHE I PROSPECTUS ISSUED TO THE PUBLIC

This Addendum cum Corrigendum should be read along with the Shelf Prospectus dated January 11, 2019 and the Tranche I Prospectus dated January 11, 2019 filed with the RoC, Stock Exchanges and SEBI. All capitalized terms used in this notice shall, unless the context otherwise requires, have the meanings ascribed in the Shelf Prospectus.

- Investors may please note the following updates/ amendments to the Shelf Prospectus and/or Tranche I Prospectus:**
- On the cover page of the Shelf Prospectus and the cover page of the Tranche I Prospectus, under the head "LISTING", "National Stock Exchange Limited ("NSE")" is replaced with "National Stock Exchange of India Limited ("NSE")".
 - On page 226 of the Shelf Prospectus and page 86 of the Tranche I Prospectus "National Stock Exchange Limited" is replaced with "National Stock Exchange of India Limited".
 - On page 97 of the Tranche I Prospectus, after point no. 8, point no. 9 should be added to provide "Addendum to the Public Issue Account Agreement dated January 17, 2019 executed between our Company, Lead Managers, Refund Bank, Public Issue Account Bank and the Registrar to the Tranche I Issue".
 - On page 8 of the Tranche I Prospectus the definition of Public Issue Account Agreement shall be replaced with Agreement dated January 17, 2019 read with the Addendum to the Public Issue Account Agreement dated January 17, 2019 both entered amongst our Company, Registrar, the Public Issue Account Bank, the Refund Bank and the Lead Managers for collection of the Application Amounts from ASBA Accounts and where applicable, refunds of the amounts collected from the Applicants on the terms and conditions thereof.

DISCLAIMER CLAUSE OF BRICKWORK: Brickwork Ratings has assigned the rating based on the information obtained from the issuer and other reliable sources, which are deemed to be accurate. Brickwork has taken considerable steps to avoid any data distortion; however, it does not examine the precision or completeness of the information obtained. The rating assigned by Brickwork should be treated as an opinion rather than a recommendation to buy, sell or hold the rated instrument and Brickwork shall not be liable for any losses incurred by users from any use of its report or its contents. Brickwork has the right to change, suspend or withdraw the ratings at any time for any reason.

DISCLAIMER CLAUSE OF CRISIL: CRISIL ratings reflects CRISIL's current opinion on the likelihood of an timely payment of the rated instrument and CRISIL does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information reviewed. CRISIL ratings are not a recommendation to invest / disinvest in any and should not be construed as an expert advice or investment advice or any form of investment banking within the meaning of any law or regulation. CRISIL is not responsible for any errors and especially states that it has no financial liability whatsoever to the subscribers/users/transmitters/distributors of this product.

DISCLAIMER CLAUSE OF ICRA: An ICRA rating is a symbolic indicator of ICRA's current opinion on the relative capability of the issuer concerned to timely service debts and obligations, with respect to the instrument rated. ICRA ratings should not be treated as recommendation to buy, sell or hold the rated debt instruments. ICRA ratings are subject to a process of surveillance, which may lead to revision in ratings. ICRA in particular makes no representation or warranty, express or implied as to the accuracy, timeliness or completeness of any such information. All information contained herein must be construed solely as statement of opinion, and ICRA shall not be liable for any losses incurred by users from any use of this publication or its contents.

DISCLAIMER: India Infoline Finance Limited, subject to market conditions and other considerations is proposing a public issue of secured, redeemable non-convertible debentures ("Secured NCDs") and unsecured, redeemable non-convertible Debentures ("Unsecured NCDs") (collectively "NCDs") and has filed the Shelf Prospectus dated January 11, 2019 and Tranche I Prospectus dated January 11, 2019 with the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai, National Stock Exchange of India Limited, BSE Limited and SEBI. The Shelf Prospectus dated January 11, 2019 and Tranche I Prospectus dated January 11, 2019 are available on the Company's website www.iifl.com, on the website of the stock exchanges www.nseindia.com, www.bseindia.com and the respective websites of the lead managers at www.edelweissfn.com, www.iiflcap.com and www.icicisecurities.com and www.trustgroup.in. Investors proposing to participate in the issue, should invest only on the basis of the information contained in the Shelf Prospectus dated January 11, 2019 and Tranche I Prospectus dated January 11, 2019. Investors should note that investment in NCDs involves a high degree of risks and for details relating to the same, please refer to Shelf Prospectus dated January 11, 2019, including the section on "Risk Factors" beginning on Page 18 of the Shelf Prospectus dated January 11, 2019.

Place : Mumbai
Date : January 19, 2019

For India Infoline Finance Limited
-Sd
Sumit Balli
Executive Director & Chief Executive Officer
(DIN: 02896088)

SBI
Security Operations Centre, Information Security Department, State Bank Global IT Centre, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai - 400 614.

Request for Proposal (RFP) for setting up Next Gen Global Cyber Security Operations Centre (GCSCOC)

State Bank of India has issued RFP for setting up captive Next Gen Global Cyber Security Operations Centre (GCSCOC). For details, please see "Procurement News" on Bank's website <https://bank.sbi>

Place: Navi Mumbai Sd/-
Date: 21/01/2019 Dy. General Manager (SOC)

WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANY LIMITED
(A Govt. of West Bengal Enterprise)
Regd. Office: Vidyut Bhawan, Block-04, Sector-8, Bidhannagar, Kolkata - 700 081
CIN: U40100WB2007SGC113473, ceo@wbseidcl@gmail.com, www.wbseidcl.in

EXTENSION OF TIME

Ref. No.: CED/NIT/2018-19/OCC/07, dated: 14.12.2018 (Tender ID: 2018_WBSED_201750_1) originally published in this newspaper on 21.12.2018. Due to some unavoidable circumstances, the Closing Date of Bid Submission (online) is hereby extended up to 15:00 hrs. on 29.01.2019. Other key dates and details are available on www.wbseidcl.in & www.wbtenders.gov.in

WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANY LIMITED
(A Govt. of West Bengal Enterprise)
Regd. Office: Vidyut Bhawan, Block-04, Sector-8, Bidhannagar, Kolkata - 700 081
CIN: U40100WB2007SGC113473, ceo@wbseidcl@gmail.com, www.wbseidcl.in

NIT No.: WBSEIDCL/CE/Communication/FRTU/808 Date: 11.01.2019

The Chief Engineer, Communication Cell, WBSEIDCL, Kolkata-700091 invites e-tenders for "RFP for Design, Engineering, Supply, Installation, Testing, Commissioning of FRTUs for RMU of Bidhannagar & Newtown areas under WBSEIDCL." tenders are to be submitted online through <https://wbtenders.gov.in>. Details are available on www.wbseidcl.in from 21.01.2019 (14:00 hrs.) onwards.

NEW DELHI TELEVISION LIMITED
CIN: L92111DL1988PLC033099
Regd. Off.: 402, Archana, B - Block Road, Archana, Greater Kailash - I, New Delhi-110048
Phone: (91-11) 4157 7777, 2644 6666 Fax: 49862990
E-mail: corporate@ndtv.com; Website: www.ndtv.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Regulation 29 and 47 of the Securities (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of Board of Directors of New Delhi Television Limited will be held on Friday, February 8, 2019, inter-alia to consider and approve un-audited financial results (standalone & consolidated) of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2018.

Information in this regard is also available on the website of the Company i.e. www.ndtv.com and on the website of stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com

For New Delhi Television Limited
Hemant Kumar Gupta
Date : January 18, 2019 Company Secretary & Compliance Officer

JK AGRI GENETICS LTD.
Regd. Office : 7, Council House Street, Kolkata-700011
Phone: +91 33 22486181, Fax: +91 33 22481641, CIN: L01400WB2000PLC091286

NOTICE

A meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, January 30, 2019, inter alia, to consider and approve the unaudited financial results for the third quarter ended 31st December 2018.

The information can be accessed on the website of the stock exchange at www.bseindia.com and also on the Company's website at www.jkagri.com

for JK Agri Genetics Ltd.
Place : New Delhi Sd/-
Dated : 19th January, 2019 Anoop Singh Gusain
Email: jkagshareholder@jkmmail.com Company Secretary

NMDC Limited
(A Government of India Enterprise)
Domimetal IRON ORE MINE
Domimetal Township-583118, Dist.-Belary (Karnataka), CIN: L13100AP1956G01001674

Corrigendum Dated : 09.01.2019

Name of Work: "Construction of Shed for Keeping HT LT Motors, Transformers, Panels etc, at Loading Plant, DIOM"
Tender Enquiry no. CE/W/1(817)/2017, Dtd. 23-10-2018

Description	As per Original tender	Amended as
Last date and time for submission of tender	Up to 15:00 hours on 09.01.2019	Up to 15:00 hours on 08.02.2019
Time and date for Opening of Part-I tender	At 15:30 hours on 09.01.2019	At 15:30 hours on 08.02.2019
Last date of Sale/ down loading of tender document	09.01.2019	08.02.2019

2nd Corrigendum Dated : 03.01.2019

Name of Work: "Industrial Painting of Steel Structure at Conveyor 411 at DIOM"
Tender Enquiry no. CE/W/1(833)/2018, Dtd. 04-10-2018
(1) Tender Enquiry dated: 03.12.2018.

Description	As per Original tender	Amended as
Last date and time for submission of tender	Up to 15:00 hours on 03.12.201	

भाजपा की युवा विजय संकल्प महारैली में बोले शिवराज सिंह चौहान

महागठबंधन में दल मिले, दिल नहीं

जनसत्ता यूरो नई दिल्ली, 20 जनवरी।

विपक्षी 22 दलों के महागठबंधन को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा के खिलाफ बने इस महागठबंधन में केवल दल मिले हैं, नेताओं के दिल नहीं मिले हैं। वे रामलीला मैदान में युवा विजय संकल्प महारैली 2019 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने महागठबंधन को भ्रान्ति का कुन्वा कहा। शिवराज सिंह ने महागठबंधन को बिना दूध के बिना दूध की बारात बताया और कहा कि 22 दल आज तक अपना मुखिया नहीं तय कर पाए। उन्होंने महागठबंधन की तुलना चींटियों के ऐसे समूह से की जो गन्नों की सूखी खोई कहीं नहीं ले जा पाती। शिवराज ने मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में चुनाव अजीब हुआ है। प्रदेश में सबसे अधिक मत भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, जबकि सीटें कांग्रेस की अधिक हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार को लंबड़ी-तूली बताया और कहा कि वह सरकार कभी भी गिर सकती है।

उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में लोकसभा की सभी 27 सीटें भाजपा जीतेगी। उन्होंने दिल्ली के युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे पिछले लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी सातों सीटों पर भाजपा को जिताने। चौहान ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव प्रश्नचार्ज के खिलाफ है। केंद्र सरकार ने आम जनता से चुड़ी योजनाएं लागू की हैं। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, उच्चवला योजना समेत कई योजनाएं हैं। 2019 के चुनाव से पहले युवा जमीनी स्तर पर लोगों के बीच जाएं और केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने



'पीठ दिखाने वालों की कसई जाएगी जांच'

महारैली में युवाओं ने जीत का संकल्प नहीं लिया। काफी संख्या में युवा मैदान में पहुंचे, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के भाषण से पहले ही बाहर चले गए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इस पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने मंच से कहा कि मैदान में पीठ दिखाने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी स्तर पर जांच की जाएगी। पार्टी इससे पहले भी कई बड़े कार्यक्रमों में ऐसे हालत का सामना कर चुकी है। तिवारी ने कहा कि मैदान से उतरकर चले जाना चिंता की बात है। पार्टी इसकी जांच करेगी।

की कोशिश करें। रैली में मौजूद केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने कहा कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की वापसी होती है तो हालात और बिगड़ेंगे। 'आप' सरकार ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से एक बंद एक झूठ बोला है। उनकी सरकार ने प्रदूषण व झुग्गी बस्तियों के लिए कोई काम नहीं किया है। इसलिए युवा इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट दें और उसे सातों सीटों पर विजयी बनाएं। रैली

की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी व युवा मोर्चा अध्यक्ष सुनील यादव ने की। रैली में भाजपा राष्ट्रीय मंत्री अनिल जैन, केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्यामजाजू, सहप्रभारी तन्ना चुग, लोकसभा सह प्रभारी जयभगवान पयैया, मिजोरम प्रभारी पवन शर्मा, सांसद मीनाक्षी लेखी, उदितयज, पार्टी उपाध्यक्ष जय प्रकाश, राजीव बब्बर, मोनिका सिंह समेत अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।

हंसराज कॉलेज में बीए प्रोग्राम की सीटें होंगी पांच गुना

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 20 जनवरी।

डीयू में 2019-20 के दाखिलों की तैयारी जोर-शोर से चल रही है। इसी क्रम में बुधवार को हुई विद्यार्थी परिषद (एसो) बैठक में 30 से अधिक नए पाठ्यक्रम पास किए गए हैं। कुछ कॉलेजों के कुछ पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या में भी इजाजत किया गया है। हंसराज कॉलेज में बीए प्रोग्राम की 40 सीटों को बढ़ाकर 200 करने का फैसला किया है। अदिति महाविद्यालय में बीकॉम की सीटों को 55 से बढ़ाकर 80 और बीकॉम ऑनर्स में 45 से बढ़ाकर 92 सीटें कर दी गई हैं। एसो के सदस्य प्रोफेसर हंसराज सुमन के अनुसार भीमवार आंबेडकर कॉलेज को अंग्रेजी ऑनर्स, शिवाजी कॉलेज को बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, दयाल सिंह साधु को अर्थशास्त्र ऑनर्स, गुरुनाथक देव खालसा कॉलेज को अर्थशास्त्र ऑनर्स, मिरांडा हाउस को बीएससी (ऑनर्स) बायोमैडिकल साइंस, केशव महाविद्यालय को बीएससी (ऑनर्स) बायोमैडिकल साइंस, जीएस एंड मेरी

कॉलेज को हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार, भीमवार आंबेडकर कॉलेज को पंचांग ऑनर्स, भारकरवाच्य कॉलेज को मनोविज्ञान ऑनर्स, हंसराज कॉलेज को दर्शनशास्त्र ऑनर्स, दयाल सिंह कॉलेज को इतिहास ऑनर्स, भीमवार आंबेडकर कॉलेज को राजनीतिक शास्त्र ऑनर्स, लक्ष्मीबाई कॉलेज को समाजशास्त्र ऑनर्स, केशव महाविद्यालय को रसायन शास्त्र ऑनर्स, राजघनी कॉलेज को बीएससी लाइव साइंस, इस्टीमेट ऑफ होम इकोनॉमिक्स को बीएससी लाइव साइंस, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज को भूगोल ऑनर्स, भारकरवाच्य कॉलेज को भूगोल ऑनर्स, विवेकानंद कॉलेज को पर्यावरण विज्ञान ऑनर्स, इंद्रप्रस्थ कॉलेज पर्यावरण विज्ञान ऑनर्स, गुरुनाथक देव खालसा को पर्यावरण विज्ञान ऑनर्स, भारकरवाच्य कॉलेज को पर्यावरण विज्ञान ऑनर्स, लेडी श्रीराम कॉलेज को पर्यावरण विज्ञान ऑनर्स, रामानुजम कॉलेज को पर्यावरण विज्ञान ऑनर्स, विवेकानंद कॉलेज को गृह विज्ञान, लक्ष्मीबाई कॉलेज को गृह विज्ञान ऑनर्स आदि पाठ्यक्रम दिए गए हैं।

एसआरसीसी के विद्यार्थियों ने दिया वित्तीय ज्ञान

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 20 जनवरी।

दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) की वित्तीय साक्षरता इकाई, वित्तशाखा के तहत विद्यार्थियों ने मेरठ जिले के राजपुरा और खरखौर ब्लॉक के लोगों को वित्तीय ज्ञान दिया। वित्तशाखा के संयोजक और एसआरसीसी के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि 19 और 20 जनवरी को प्रशासन की सहायता से राजपुरा और खरखौर ब्लॉक में वित्तीय साक्षरता अभियान चलाया

गया। इस दौरान बैंकिंग, बचत और बीमा के महत्व को दर्शाने के लिए नुककड़ नाटक का आयोजन किया गया। साथ ही वित्तीय समावेशन की बारीकियों को स्पष्ट करने के लिए दरवाजे-दरवाजे अभियान चलाया गया। इसके अलावा केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं जिसमें पीएम जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि के बारे में बताया गया।

दिल्ली में दिलचस्प होगा शीला और केजरीवाल का मुकाबला

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 20 जनवरी।

दिल्ली के विवासी समर में इस बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बीच बेहद दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है। लोकसभा की सात सीटों के चुनाव और कुछ ही महीनों बाद होने वाले विधानसभा की 70 सीटों के चुनाव में भी इन दोनों सुरमाओं का शक्ति परीक्षण होना है। आम आदमी पार्टी (आप) से गठबंधन नहीं करने का एलान कर दिल्ली कांग्रेस की मुखिया बनी दीक्षित के लिए करीब पांच साल पहले केजरीवाल के हाथों मिली करारी शिकस्त का हिसाब चुकाने का यह पहला मौका है। सायद यही वजह है कि 80 की उम्र में भी उन्होंने दिल्ली की गलियों में उतरकर भाजपा और 'आप' सरकारों के खिलाफ अलख जगाने का फैसला किया है। प्रदेश कांग्रेस की नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीक्षित ने कहा है कि वे पिछले 10 खूद दीक्षित ऐसे जनसंपर्क अभियानों की अगुआई करंगी। पानी, बिजली, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि तमाम मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरा जाएगा। दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री व 'आप' के मुखिया अरविंद केजरीवाल की अगुआई में उनकी पार्टी ने भी घर-घर घूमकर जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। कोलकाता में हुई गुणगुल कांग्रेस की रैली के बाद केजरीवाल खुद दिल्ली में बड़ी रैली करने की तैयारी में हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनावी मैदान में दिल्ली के इन दो महारथियों का मुकाबला वाकई जोरदार होगा।

दिल्ली की जनता दीक्षित की अगुआई वाली कांग्रेस सरकार और आम आदमी पार्टी सरकार की तुलना कर रही है। लोगों को दिख रहा है कि शीला दीक्षित ने दिल्ली को किस कदर चमकाया और अब अरविंद केजरीवाल की अगुआई वाली सरकार में किस तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर चुनाव चाहे लोकसभा का हो या दिल्ली का, लोग तुलना तो करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार की उपलब्धियों दिल्ली के साथ-साथ पूरा देश रहा है। किस तरह नोटबंदी से लेकर जीएसटी और रफाल विमान की खरीद में चपले हुए हैं। ऐसे में दिल्ली में कांग्रेस शीला दीक्षित की अगुआई में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों के खिलाफ अभियान छेड़ेंगे।

पार्टी सुनो का कहना है कि दीक्षित ने यह तय किया है कि उनकी अगुआई वाली सरकार की उपलब्धियों और केजरीवाल सरकार की कमियों की फेहरिस्त लेकर कांग्रेस के लोग जनता के बीच जाएंगे। खुद दीक्षित ऐसे जनसंपर्क अभियानों की अगुआई करंगी। पानी, बिजली, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि तमाम मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरा जाएगा। दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री व 'आप' के मुखिया अरविंद केजरीवाल की अगुआई में उनकी पार्टी ने भी घर-घर घूमकर जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। कोलकाता में हुई गुणगुल कांग्रेस की रैली के बाद केजरीवाल खुद दिल्ली में बड़ी रैली करने की तैयारी में हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनावी मैदान में दिल्ली के इन दो महारथियों का मुकाबला वाकई जोरदार होगा।

Advertisement for Allahabad Bank featuring a table of interest rates for various deposit schemes. The table includes columns for deposit type, amount, and interest rate. The bank's name 'ALLAHABAD BANK' is prominently displayed at the top.

Advertisement for YONO SBI (You Only Need One SBI) banking app. It features a hand holding a shopping bag with a rupee symbol and the text 'पाएं डील्स और डिस्काउंट्स. पूरे साल भर.' (Get deals and discounts all year long). The app is available for download on the Google Play Store.

शुरुआती कक्षाओं में लागू करें लर्निंग आउटकम : सीबीएसई

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 20 जनवरी।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सभी संबद्ध विद्यालयों को शुरुआती कक्षाओं में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की ओर से तैयार किए गए लर्निंग आउटकम (सीखने का परिणाम) को अगले सत्र से लागू करने को कहा है। लर्निंग आउटकम को लागू करने के लिए बोर्ड ने विद्यालयों को 12 सूत्री निर्देश दिए हैं। इसके साथ यह भी कहा गया है कि एनसीईआरटी उच्च कक्षाओं के लिए लर्निंग आउटकम तैयार कर रही है, ऐसे में शुरुआती स्तर पर लर्निंग आउटकम को आगामी सत्र में लागू करना जरूरी है। बोर्ड के अकादमिक निदेशक डॉक्टर जोसेफ इमानुएल के मुताबिक बच्चों को अर्थपूर्ण और आनंदपूर्ण सीखने का अनुभव देने के लिए लर्निंग आउटकम लागू करना जरूरी है। अध्यापन के मामले में किताबों पर ही निर्भर न रहने, अभिभावकों को संवेदनशील बनाने, शिक्षकों के लिए तीन दिन और प्रधानाचार्यों के लिए दो दिन का परीक्षण आयोजित करने और विद्यालय परिसर में लर्निंग आउटकम के पोस्टर लगाने का निर्देश दिया गया है। बोर्ड ने कहा है कि लर्निंग आउटकम दस्तावेज में कक्षावार और विषयवार लर्निंग आउटकम के मार्गकों का उल्लेख किया गया है। यह दस्तावेज हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में तैयार किया गया है। बोर्ड ने यह भी कहा है कि कक्षाओं से अलग बच्चों की आवश्यकतानुसार शिक्षक संदर्भित संसाधनों और सीखने की प्रक्रिया का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार की स्थितियां और मौके गढ़ सकता है।

Advertisement for NDTV (New Delhi Television) featuring the text 'नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड' and 'सुचना' (Information). It includes contact details and the website URL www.ndtv.com.

A detailed table listing various bank deposit schemes offered by Allahabad Bank. The table has columns for 'Scheme Name', 'Amount', 'Interest Rate', and 'Tenure'. It lists 25 different schemes with their respective details.